



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 4, सोमवार, शाके 1941 अगस्त 26, 2019  
Bhadra 4, Monday, Saka 1941-August 26, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur August 14, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/ 7611** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Board Sumerpur has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Sumerpur. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगरपालिका मण्डल,सुमेरपुर जिला – पाली (राज.)  
नगरपालिका,सुमेरपुर में 2011 की जनगणना के आधार पर वार्ड पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव  
प्रपत्र : क

वार्ड संख्या	ब्लॉक संख्या	विवरण	जनसंख्या
1	1-1 पूरा, 1-2 पूरा, 2 पूरा	RSEB - GSS 132 k vc के उत्तरी कोने से सरहद मौजा जाखोडा की दक्षिणी दिशा की आबादी लेते हुए मॉर्डन स्कूल से सरहद पोमावा दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए बाबुलाल जेठाजी भील के मकान से चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए विशनाराम गवारिया से चलकर मोहनलाल भील के मकान से पूर्व में बाबुलाल खारवाल के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए गोरखाराम के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए रामलाल मेघवाल के दुकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए मंछाराम वीसाजी मीणा के मकान से पूर्व में चलकर पुनः RSEB GSS 132 kvc तक जा मिलें।	1279
2	3 पूरा, 4 पूरा, 5 पूरा	प्रभुराम खारवाल के मकान व ओम ट्रांसपोर्ट कम्पनी से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए शंभुसिंह राठौड किराणा दूकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए भोमाराम मीणा के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए रामदेवजी मंदिर एवं वन विभाग चौकी से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए मोहनलाल देवाजी हीरागर से उत्तर में जेपाराम देवाजी हीरागर से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पंकुदेवी छोगारामजी मेघवाल से आगे हनुमानजी मंदिर से पश्चिम में चलकर दक्षिणी	1249

		आबादी लेते हुए नाथुराम भाट के मकान से महेन्द्रकुमार जसाजी मेघवाल के मकान से सरहद मौजा पोमावा से दक्षिण में चलकर पुनः पूर्व की तरफ चलकर शाबीर हुसैन के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए रावण मैदान होते हुए वन विभाग चौकी से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए रा.प्रा. विद्यालय से चलकर पुनः प्रभुराम खारवाल से जा मिले।	
3	6-1 पूरा, 6-2 पूरा	भगतसिंह सर्किल सामुदायिक शौचालय से अमरनाथ कॉम्प्लेक्स से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी (देवडा कॉलोनी, शिव वाटिका, गोविंद सागर, हनुमान सागर) की आबादी लेते हुए जाखा माता मंदिर से पश्चिम में चलकर सरहद मौजा पोमावा एनएच-62 से दक्षिण में चलकर विश्वकर्मा उद्योग पोमावा पुल के पास से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी कुबेर नगर, अम्बाजी नगर, सुभाष नगर की उत्तरी आबादी लेते हुए पुनः भगतसिंह सर्किल सामुदायिक शौचालय से जा मिले।	971
4	7 पूरा 8 पूरा 9-2 पूरा	लैन्ड बिजलीघर के पास आर.के. ऑटो इलैक्ट्रीकल्स से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए सरहद मौजा पुराडा एनएच-62 के पास लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए पहाडी पर बोध विहार नागेश्वर महादेव, देवासी छात्रावास से पूर्व में मस्जिद से पूर्व में चलकर हबीब खां/शोबत खां से मुराद खां के मकान ई.डब्ल्यू.एस. क्वाटर नं. 11 से पूर्व में चलकर ई.डब्ल्यू.एस. क्वाटर 01 से उत्तर में चलकर एस.के. पठान के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए नेशनल कम्पनी व वनाराम चौधरी के दुकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए विवेकानंद बस स्टेण्ड से पुनः लैन्ड बिजलीघर के पास आर.के. ऑटो इलैक्ट्रीकल्स से जा मिले।	1168
5	10 पूरा, 11 पूरा, 12 का भाग	पाली सडक भगतसिंह सर्किल के पास चमनाराम मकनाजी कुम्हार के होटल से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए बाईपास रोड ज्योति बा फुले उद्यान, फायर कार्यालय से पहाडी के सहारे सहारे पूर्व में सांकलाराम धुलाजी देवासी के मकान से धुलाराम रामाराजी से सांकलाराम तोलाजी से सोनाराम जेताजी से जीवाराम वीराजी से मोतीराम वीराजी से पूर्व में चलकर प्रेमराम मोतीजी से उत्तरी आबादी लेते हुए कविता मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स गांधी मूर्ति के पास से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए हरीश जीनिंग फ़ैक्ट्री से पुनः चमनाराम मकनाजी कुम्हार की होटल से जा मिले।	1204
6	15 का भाग, 13 पूरा, 14 पूरा, 12 का भाग	गांधी मूर्ति के पीछे भेराराम चेलाराम (मरुधर हार्डवेयर) घांची की दुकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए नेमाराम दरगाजी देवासी के मकान से सवाराम भक्ताजी देवासी के मकान से पहाडी के सहारे सहारे जब्बरसिंह रावतसिंह राजपुत के मकान (हाथी गडा के सामने) से आगे चलकर पानी टंकी से पुनः दक्षिण की तरफ चलकर पूर्व आबादी लेते हुए जसापुरी गोस्वामी के मकान से आगे दक्षिण में सुजानसिंह जुहारसिंह के मकान व खाली प्लोट से गली पार कर खेताराम भीकाजी ढोली से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए पाली रोड मदनजी अग्रवाल के बंद मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पुनः भेराराम चेलाराम घांची के दुकान गांधी मूर्ति तक जा मिले।	1341
7	16 पूरा , 17-1 पूरा, 17-2 का भाग	पाली रोड जैन धर्मशाला से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए हिम्मतमल माली के मकान से सामने बाबुलाल नाई के मकान से चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए हाथी गडा से चलकर पानी टंकी से भोमसिंह भाटी के खाली प्लाट से रोड पार कर सामने	1390

		रामदेव टेंट से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए बाई पास रोड रामदेव बॉडी रिपेयरिंग गैरिज से दक्षिण में चलकर महावीर रोडलाईन्स से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए जसाराम मीणा के मकान से रोड पार कर लालजी महाराज मन्दिर एवं पेचका जाव कॉर्नर से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए पूनमसिंह हमीरसिंह के दुकान से पूर्व में चलकर मानसरोवर होटल से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पाली बस स्टेण्ड से लालचंद मुकनलाल अग्रवाल के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पुनः जैन धर्मशाला से जा मिले।	
8	15 का भाग, 18-1 पूरा, 9-1 पूरा	महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन से पश्चिम में चलकर बीएसएनएल कार्यालय से दक्षिण में चलकर डायाराम गाडोलिया लुहार के मकान से ई.डब्ल्यू.एस. क्वाटर के पीछे चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए देवजी लुहार के कुए से दक्षिण में वैष्णव धर्मशाला से पूर्व में चलकर बाई पास रोड पार कर उत्तर में रमेशकुमार कपुरजी सुथार के गैराज से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए रिखबचंद के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पानी टंकी से पश्चिम में चलकर पहाडी के सहारे सहारे बाई पास रोड पार कर पुनः महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन तक जा मिले।	1114
9	17-2 का भाग, 18-2 पूरा, 19-1 का भाग	लालजी महाराज मंदिर के पीछे आनन्द नगर (गोशाला) से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए बाईपास रोड मोटर बोडी रिपेयरिंग गैराज से बाईपास रोड पार कर पश्चिम में चलकर वैष्णव धर्मशाला से दक्षिण में चलकर सरहद मौजा पुराडा से सडक पार कर दक्षिण में हैण्डपम्प के पास पुरोहित के खाली भूखण्ड से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए गंदा नाला पार कर राजू हरिजन के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए स्कूल के आगे नत्थु भाई ढोली के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए राजुभाई चांवरिया के मकान से चलकर जगदीशसिंह पुत्र दयालसिंह से आगे चलकर रूस्तम खां पुत्र मोहम्मद खां के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए मुराद खां रमजान खां के मकान से पश्चिमी आबादी लेते हुए पुराडा रोड मन्नाराम कुम्हार के मकान के सामने रोड पार कर जसाजी कॉलोनी के खाली भूखण्ड से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए चन्द्रशेखर सर्किल पार कर चुंगी नाके से चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए लियो क्लब के खाली भूखण्ड से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए मयूर ट्रावेल्स के पास गौशाला से जा मिले।	1043
10	19-2 पूरा 21-2 पूरा	पुराडा मार्ग रिखबचंदजी के गैरेज से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए चन्द्रशेखर सर्कल से आगे तहसील व कोर्ट कार्यालय से आगे चलकर श्री तलसाराम वीराजी के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए सायरमल के मकान से आगे गुलाब खां के मकान से आगे आस्था गार्डन वाले के मकान से रोड पार कर पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए नजीर खां नितन खां के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी व पश्चिमी आबादी सरहद मौजा पुराडा से नदी किनारे से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए भोमिया राजपूत छात्रावास से पूर्व में चलकर शिवगंज मार्ग पुलिये के पास हनुमान मंदिर से उत्तर में चलकर जैन छात्रावास आबादी लेते हुए शिक्षा क्रांति रंगमंच से पुनः रिखबचंद जैन के गैरेज से जा मिले।	900
11	20 पूरा, 21-1 पूरा	जवाईबांध रोड पर मस्जिद से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए शंकरलाल अग्रवाल पम्प से दक्षिण में चलकर स्कूल	1116

		बाउण्डी से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए निलकंठ महादेव मंदिर से पूर्व में नदी किनारे के सहारे सहारे कब्रिस्तान से शिवगंज रोड से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए श्रीपाल नगर से चलकर गणेश टॉकीज के आगे पुनः मस्जिद से जा मिले।	
12	22 पूरा, 23 पूरा	पाली रोड पर सौभाग्य टलेक्ट्रीक एण्ड मोबाईल शॉप से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए श्री जमनसिंह पाबूसिंह पेट्रोल पम्प से जवाईबांध रोड पर पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए लाल निवास से उत्तर में चलकर श्री गुलाबजी कसाई (मुसलमान) के मकान से पश्चिम में छगनलाल गोविन्दजी मेवाडा होली चौक के दक्षिण में अब्दुल गनी पुत्र हुसैनजी के के मकान से चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए पतली गली से पुनः सौभाग्य टलेक्ट्रीक एण्ड मोबाईल शॉप. दुकान से जा मिले।	968
13	24 पूरा, 25 पूरा	गांधी मूर्ति के पास सुथार अमृतलाल सुखजी के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए बस्तीमल जैन के मकान से पतली गली में पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए रहीम खांजी के मकान से उत्तर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए कस्तुराराम डायजी मेघवाल के मकान से लकडी बाजार में उत्तर चलकर गणेश हंसाजी सुथार के घर से गणेश मार्ग से पश्चिम चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए पुनः अमृतलाल सुखजी सुथार के घर तक जा मिले।	1063
14	26 पूरा, 27 पूरा	गांधी मूर्ति के पास श्री रमेश चुन्नीलालजी खटीक के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए शिव ट्रांसपोर्ट कंपनी से उत्तर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए श्री नारायण धनाजी घांची के मकान से पश्चिम चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए नेमाराम घांची के अलमारी की दुकान से गली में दक्षिण चलकर पश्चिम मुड़कर पश्चिमी आबादी लेते हुए अमृत प्रोविजन स्टोर्स(मांगीलाल छोगाजी प्रजापत के मकान)से होते हुए पाली सडक दक्षिण चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए पुनः गांधी मूर्ति के पास कमल इलेक्ट्रॉनिक्स(रमेश चुन्नीलाल खटीक के मकान) से जा मिले।	1124
15	29-1 पूरा, 29-2 पूरा	मैन बाजार में हस्तीमल जैन के बर्तनों की दूकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए गणेश प्लाजा से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए देवजी रतनाजी से सडक पार कर शिवशक्ति टिम्बर से दक्षिणी आबादी लेते हुए पश्चिम में विनायक टिम्बर से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए गणेश केरीगजी के कारखाने से पूर्व में चलकर मोहनलाल लुहार के मकान से पावर हाउस जवाईबांध रोड से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए सेण्डविच कॉर्नर से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए घीसूलाल घांची की दूकान से रोड पार कर चौहान ट्रासपोर्ट कम्पनी से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पुनः हस्तीमल जैन की दुकान से जा मिले।	1052
16	30 पूरा, 31 का भाग	जवाईबांध रोड पर राधाकृष्ण होटल से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए साकेत आश्रम के पीछे जवाई नदी से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए आसोप कॉलोनी से लक्ष्मण नगर व हमीरसिंह दानसिंह के कुएं के सामने महावीर कॉलोनी से उत्तर में पश्चिमी आबादी लेते हुए गायत्री कॉलोनी से हिम्मत धनेरा के मकान से पश्चिम में मदनसिंह राजपुरोहित शीवतलाव के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए श्री किस्तुरजी ढोली के मकान से रोड पार कर श्री दिनेश कुमार ताराजी माली के मकान से उत्तर में चल कर पश्चिमी आबादी लेते हुए मील एरिया बस्ती आबादी लेते हुए जवाई बांध रोड पर विनायक स्टूडियो से पश्चिम	1006

		में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए पुनः राधाकृष्ण होटल से जा मिले।	
17	31 का भाग, 32 पूरा	जवाईबांध रोड पर अरुण डिजल से दक्षिण में चल कर पूर्वी आबादी लेते हुए श्री अनोपसिंहजी के मकान से आगे चलकर मांगूसिंह बिसलपुर वाले के मकान से पूर्व में चल कर न्यू महावीर कॉलोनी, डोली जाव, महावीर कॉलोनी से आगे आनन्दसिंह के मकान से अमृतलाल थानाजी सुथार के मकान से आगे चलकर भागचन्द प्रजापत के मकान के सामने रोड पार कर ब्रहमपुरी कॉलोनी की पूर्वी आबादी लेते हुए दक्षिण में चलकर हमीरसिंह दानसिंह के कुएँ से नदी के किनारे किनारे पूर्व में चलकर भोपालसिंह दानसिंह के कुएँ से उत्तर में चलकर ब्रहमपुरी कॉलोनी, साईं कॉलोनी की पश्चिमी आबादी लेते हुए दुध डेयरी से रोड पार कर उत्तर में चलकर रमेशकुमार थानाजी सुथार के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए छगनलाल ताराजी सुथार के मकान से रोड पार कर नटवर नागर के मकान से पूर्व में चलकर श्री सम्पतलाल मेवाडा के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए जवाईबांध रोड पुलिस थाना से पश्चिम में चलकर कर दक्षिणी आबादी लेते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से चलकर दक्षिणी आबादी गांधी कॉलोनी को लेते हुए वागाजी डूंगाजी की दुकान से पश्चिम में चलकर बैंक ऑफ बडौदा से आगे चलकर अरुण डिजल से जा मिले।	1072
18	33 पूरा, 34 का भाग	जवाईबांध रोड पर पुराना पोस्ट ऑफिस से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए दिनेश पुत्र मूलचंद अग्रवाल के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए मोतीजी कुम्हार के मकान के पास से दक्षिण में रतनलाल गेहलोत से चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए भंवरसिंह पर्वतसिंह के मकान से रोड पार कर दक्षिण में भंवरजी माली (बैटरी वाले) के मकान से दक्षिण में सीधे मोडसिंह जुंजारसिंह के कुएँ से जवाई नदी किनारे किनारे पूर्व में चलकर रेशमसिंह सरदार के कुएँ से पूर्व में चलकर नथाजी कुम्हार के कुएँ के (गुरुकृपा कॉलोनी) सामने की कृषि भूमि से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए वेयर हाउस रोड से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए जगदीशजी मेवाडा वकील के मकान से आगे चलकर राधेश्याम ठाकुरदास अग्रवाल के मकान से आगे चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए गजेन्द्रसिंह राणावत के मकान से दक्षिण में चलकर रोड पार कर चेतन्यसिंह बिसलपुर के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए राजेन्द्र अग्रवाल के मकान से आगे जगदीश अग्रवाल ए-98 से रोड पार कर उत्तर में (विवाह स्थल) सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए सत्यनारायण शंकरलाल अग्रवाल के मकान से रोड पार कर सुभाषचन्द्र अग्रवाल के मकान से पूर्व में चलकर गोविन्दराम इन्द्र कुमार अग्रवाल के मकान से उत्तर में चलकर जवाईबांध रोड पर सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता निवास से आगे पश्चिम में चलकर पी.डब्ल्यू.डी. से पोस्ट ऑफिस से जा मिले।	1032
19	34 का भाग, 35 पूरा	जवाईबांध रोड पर किशोरसिंह बलदेवसिंह के खाली भूखण्ड से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए कार्नर पर राजेश कुमार बजरंगलाल अग्रवाल के मकान से पश्चिम में चलकर भरतकुमार गमनीराम नागर के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए वैभव अपार्टमेंट से पूर्व में रोड पार कर बालाजी अपार्टमेंट से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए मदनसिंह के मकान से आगे चलकर कार्नर पर खाली प्लोट से उत्तर में चलकर रोड पार कर	909

		अशोककुमार भीकमचंद अग्रवाल के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए रणवीरदास नगर से कल्याणसिंह देवीसिंह के मकान से आगे वेयर हाउस गौदाम से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए वेयर हाउस, वृंदावन, गुरुकृपा कॉलोनी की पूर्वी आबादी लेते हुए जवाई नदी से पूर्व में चलकर सरहद मौजा अणगौर से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए जवाईबांध रोड कृषि मण्डी से चलकर कृषि मण्डी के अन्दर की आबादी लेते हुए रणवीरदास, बलदेवसिंह कॉलोनी की दक्षिणी आबादी लेते हुए पुनः किशोरसिंह बलदेवसिंह चौधरी के खाली भूखण्ड से जा मिले।	
20	28 पूरा, 36 पूरा, 37 पूरा	मैन बाजार में श्री हनुमानजी मंदिर से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए उमरावसिंह संजयकुमार दुकान से एटीएम से चलकर बजरंग इण्डस्ट्रीज दुकान (नटवर रामीणा) से लक्ष्मी स्वीट से चलकर पश्चिम में कार्नर पर जोधपुर स्वीट होम के पास बंद दुकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए राजेन्द्र मार्केट में राजस्थान रोडवेज ट्रांसपोर्ट से रोड पार कर दक्षिण में पालीवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए लादावाडी के सीमा के सहारे सहारे जवाईबांध रोड पर अम्बे एगो सेन्टर से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए आगे पंचायत समिति से चलकर पेंशन भवन व विकास कॉलोनी क्वाटरों से संजीवनी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए मस्जिद से आगे जोधेश्वर महादेव से चलकर पुनः हनुमानजी मंदिर से जा मिले।	1155
21	38-1 पूरा, 38-2 का भाग	भैरू चौक भैरूजी मंदिर के आगे वल्लभ फैशन राटौड भवन से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए मैन बाजार में सोनी फौजमल लादाजी के दुकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए आदर्श मार्केट से चलकर बाबूलाल शिवलाल दुकान से आगे चलकर एसबीआई बैंक से जवाईबांध रोड पर इंडसन्ड बैंक से पूर्व में चलकर कोटक महेन्द्रा बैंक से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए शास्त्री सर्कल के पीछे चलकर स्कूल नं. 1 पुरानी बिल्डिंग से आयुर्वेदिक चिकित्सालय से मद्रास बाग में लाइब्रेरी से पश्चिम में चलकर पुनः वैभव फैशन राटौड भवन से जा मिले।	907
22	38-2 का भाग, 39-1 का भाग	भैरू चौक में भैरूजी मंदिर के पीछे अर्बुदा प्रोविजनल स्टोर से दक्षिण में चलकर जवाईबांध सिंचाई विभाग कार्यालय से पूर्वी आबादी लेते हुए इंदाजी नगर, वासुपूज्य कॉलोनी, पुष्प ऋषि कॉलोनी की आबादी लेते हुए चेतन विद्या मंदिर स्कूल से चलकर आर्य समाज भवन जवाईबांध रोड से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए पुलिस उपअधीक्षक कार्यालय से चलकर राजस्थान आई हॉस्पिटल से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए राजेन्द्र सूरी गुरु जैन मंदिर से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सर्कल पर गणेश प्रोपटी डिलर से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए लिलिपुट स्कूल से आगे ईश्वर ग्राफिक्स से चलकर पुनः भैरू चौक में अर्बुदा स्टोर से जा मिले।	820
23	39-1 का भाग, 39-2 पूरा	झांसी रानी लक्ष्मी बाई सर्कल के सामने दक्षिण में पूर्व दिशा में खाली भूखण्डों से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए चौधरी कॉलोनी खसरा नं. 426 से दक्षिण में चलकर जवाईबांध रोड पर विनायक चश्माघर से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए बालाजी धर्मकांटा से भुवनेश्वरी माताजी मंदिर उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए जवाई नहर पार कर प्रभुरामजी महाराज के कुएं से दक्षिणी आबादी गीता भवन से दक्षिण में चलकर नहर पार कर पुनः झांसी सर्कल के पास खाली भूखण्ड से जा मिले।	960

24	40 पूरा, 41 पूरा, 42 पूरा	भैरू चौक भैरूजी मंदिर के पीछे उत्तर में पीएचईडी कार्यालय से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए आगे झांसी रानी लक्ष्मी बाई सर्कल के पीछे कार्नर से उत्तर में चलकर मांगीलाल छोगाजी माली के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए चुन्नीलाल केसाजी कुम्हार के मकान से गली पार कर गणेशजी राजपूत के मकान से पश्चिम में चलकर श्रीराम बाल विद्या मंदिर स्कूल से सड़क पार कर मूलचंद छीपा के मकान से उत्तर में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए कोलीवाडा रोड पर ताराराम डूंगाजी माली के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए खेडादेवी मंदिर से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए आगे स्वास्तिक मेडीकल स्टोर से पुनः पीएचईडी कार्यालय से जा मिले।	890
25	43 पूरा, 44 पूरा	भैरू चौक के पास सिंचाई कॉलोनी के पास श्रीराम बाल विद्या मंदिर स्कूल के सामने अग्रवाल के बंद पड़े गौदाम से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए परबतसिंह के मकान से आगे पूर्व में चलकर गुडा वाला अचलाजी कुम्हार के मकान से रोड पार जवानजी कुम्हार के मकान से पूर्व बाण माता रोड से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए जोधाराम माली के दुकान से पूर्व में नहर पार कर आगे प्रभुरामजी महाराज के कुएँ से पूर्व में चलकर पाना बाला के किनारे किनारे उत्तर में चलकर कोलीवाडा रोड पाना बाला पुलिये के पास प्याउ से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए (जीवाजी कॉलोनी को छोड़ते हुए) गोविन्द सागर कॉलोनी, डूंगाजी माली कॉलोनी, पारस नगर, मेडतिया कॉलोनी लेते हुए आगे कोलीवाडा रोड पर जवानमल मेडतिया के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए गणकेश्वर कॉलोनी, बंदारा जाव से आगे चलकर पुनः अग्रवाल के बंद गौदाम से जा मिले।	900
26	45 पूरा, 47 पूरा	कोलीवाडा रोड पर उत्तर में सी.पी. गेहलोट वकील के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए देवराज सुराणा के फार्म से रोड पार कर दक्षिण में जीवाजी कॉलोनी में ईश्वरलाल बोरणा के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए भुताराम भगाजी माली के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी दक्षिणी आबादी लेते हुए अशोककुमार वरदाजी माली के मकान से उत्तर में चलकर जब्बरसिंह समरथसिंह के मकान के पास खाली भूखण्ड से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए ईश्वरलाल बोरणा जीवाजी कॉलोनी की आबादी को लेते हुए के मकान से उत्तर में कोलीवाडा रोड पार कर देवराज सुराणा फार्म से पूर्व में चलकर पाना बाला से उत्तर में चलकर गोमाराम मीणा लालजी नगर के कुएँ से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए कब्रिस्तान से पश्चिम में देवाराम गेनाजी के कारखाने से पूर्वी आबादी लेते हुए कसाईयों वाला जाव के सीमा से चलकर पुनः कोलीवाडा रोड सी.पी. गेहलोट वकील के मकान तक जा मिले।	1244
27	46-1 पूरा, 46-2 पूरा	नहर पर शनि महाराज मंदिर के सामने उत्तर में पुखराज नरसाजी कुम्हार के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए देवाराम गेनाजी कुम्हार के मकान से तेजाराम गुलाबजी कुम्हार के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए कसाईयों वाले जाव के सहारे सहारे कब्रिस्तान से पूर्व में चलकर देवाराम मगजी सुथार के कुएँ के जाव के सहारे सहारे गोमाराम मीणा लालजी नगर के कुएँ से पाना बाला से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए सुंधा माता जनरल स्टोर्स से हजारीमल मेघवाल के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए सीधे शिवलाल टेकाजी माली के मकान के पीछे नेहरू नगर से पूर्व में चलकर मदनपुरी के खाली प्लोट से चलकर पुनः पुखराज नरसाजी कुम्हार के मकान से	1170

		जा मिले।	
28	48 पूरा, 49 पूरा	कोलीवाडा मार्ग खेडा देवी मंदिर के सामने पश्चिम में चुन्नीलाल जोगरा के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए श्री अमराराम नरसाजी कुम्हार के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए मालियों की धर्मशाला से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए श्री जयरूप छोगाजी छीपा के मकान से गली पार कर पूर्व में श्री नेमीचन्द लुणिया के मकान से होते हुए दक्षिण में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए भैरुचौक में उत्तरी मद्रास वाला बगीचा से होते हुए उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पुनः चुन्नीलाल जोगरा के मकान तक जा मिले।	1083
29	50 पूरा, 51 पूरा	नहर पर शनि महाराज मंदिर के पास श्री देवाराम कुम्हार की दुकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए श्री हजाराम नाई के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए श्री लालचंद दौलतराम के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए श्री देवाराम जवानजी घांची के मकान से पूर्व में सीधे गली पार कर श्री फुलाराम लादाजी सुथार के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए श्री चुन्नीलाल लादाजी माली के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए श्री उम्मेदमल नवाजी माली के मकान से पश्चिम में चलकर श्री खीमाराम धुलाजी माली के मकान से गली पार कर पश्चिम में सामने किराणा दुकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पुनः श्री देवाराम कुम्हार के घर तक जा मिले।	1250
30	52 पूरा, 53 पूरा, 54 का भाग	भैरु चौक उत्तरी मद्रास बाग के पीछे कॉनर से राजस्थान हैयर कटिंग सैलून से चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए मोहनलाल टी जैन के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए विनायक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पीछे मोहनलाल किस्तुरजी छीपा के मकान से गली पार कर लालचन्द करमचन्द अग्रवाल के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी हुए विजय रतन के मकान से पश्चिम में चलकर चामुण्डा ट्रेडिंग कम्पनी से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए शीतला माता मंदिर से रोड पार कर अग्रवाल धर्मशाला के पीछे दक्षिण में घांचियों के महादेवजी मंदिर के पास पश्चिम में छोगाराम मोकाजी घांची के दुकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए कार्नर पर जैन के बंद मकान से दक्षिण में चल कर पूर्वी आबादी लेते हुए महादेव रेडिमेंट कपडो के दुकान मैन बाजार से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए मेहता प्याउ से सीधे पूर्व में चलकर किनारे पर राजस्थान हैयर कटिंग सैलून से पूर्व में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पुनः मोहनलाल टी जैन के मकान तक जा मिले।	962
31	54 का भाग, 56 पूरा	शिव ट्रांसपोर्ट के पूर्व में मैन बाजार में जय हिन्द ट्रेडर्स दुकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए बोम्बे ग्लास व अशोक जीनगर हुड पोसिस दुकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए भगाराम लादाजी घांची के मकान के सामने रोड पार कर मंछाराम पुनाजी घांची के मकान से उत्तरी आबादी लेते हुए कार्नर पर रमेशकुमार चुन्नीलाल घांची के मकान से पूर्व में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए आसोटिया हनुमानजी के पीछे मनरूपराम हेमाजी के मकान से रोड पार कर वरदीचंदजी बोराणा के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए मगाराम कपूरजी घांची के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए शंकरलाल रामाजी घांची के मकान से दक्षिण में चलकर रोड पार कर अम्बिका किराणा दुकान से पश्चिम में चलकर कार्नर पर	814



		अचलाराम चमनाजी घांची के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए मैन बाजार में पुनः जयहिन्द ट्रेडर्स तक जा मिले।	
32	55-1 पूरा, 55-2 पूरा	नहर पर दक्षिण दिशा में बाबूलाल पोकरजी साद के मकान के पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए नहर के पास पुखराज डावाराम मीणा के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए लसाराम चमनाजी घांची के मकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए वेलाराम घांची के मकान से गली पार कर हजाराम समाजी घांची के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए घांची समाज की धर्मशाला से भूरजी की बगीची से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए जाखा माता ज्वैलर्स से सुरेश सोनी की दुकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पुनः बाबूलाल पोकरजी साद तक जा मिलें।	804
33	57 पूरा, 58-1 पूरा, 58-2 पूरा	पाली मार्ग पर भगतसिंह सर्कल के पास इन्द्र पैलेस हॉटल से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए ललितकुमार एण्ड कम्पनी दुकान से पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए सुमेर मीणा के आगे कार्नर पर हजारीमल चतराजी घांची के चक्की से उत्तर में पुखराज जैन से रोड पार कर भंवरदास संत के मकान से पूर्व में चलकर मांगीलाल मगनजी घांची से आगे बाबूलाल वर्जीगजी के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पुनाराम पुराजी मेघवाल के मकान से रोड पार कर रामाराम मीणा से उत्तर में चलकर छगनलाल मेघवाल से आगे चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए जसाजी घांची के जाव के कार्नर से पुनः पश्चिम में चलकर जसाजी जाव व ढिबरी जाव धर्मराम धुपाजी जाव के सहारे सहारे पूर्वी आबादी लेते हुए नहर के पास मदनलाल रूपाजी माली के मकान से रोड पार कर भूराराम मीणा के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुए पुनः इन्द्र पैलेस हॉटल से जा मिलें।	1184
34	59 पूरा, 60 पूरा	भगतसिंह सर्कल, इन्द्र पैलेस हॉटल के उत्तर में ईश्वर किराणा दुकान से उत्तर में चलकर ढिबरी जाव व धर्मराम धुपाजी माली के जाव (आशापुरा कॉलोनी) की पूर्वी आबादी लेते हुए जाखामाता मंदिर के सामने हनुमानजी मंदिर के पास पाना बाला से पूर्व में चलकर घांचियों वाला जाव व चतरा वाला जाव की सीमा से दक्षिण चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए पोकरजी माली के कुएं से ईसाईयों के कब्रिस्तान से पूर्व में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए कपूरचन्द्र चमनाजी के मकान से पश्चिम में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए मेणों का गोलिया में रमेशकुमार कूपाजी घांची के मकान से उत्तर में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए गली पार कर जसाजी जाव के कार्नर से दक्षिण में धर्मराम धुपाजी माली (आशापुरा कॉलोनी) व ढिबरी जाव के पूर्वी सीमा से चलकर नहर पार कर सखाराम भगाजी कुम्हार के मकान से पश्चिम में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए पुनः ईश्वर किराणा तक जा मिले।	987
35	61 पूरा, 62 पूरा	नहर के पास शनि महाराज मंदिर के सामने प्रवीण जैन की दुकान से उत्तर में गली में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुए भारतीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन से (शिव कॉलोनी में) पश्चिम में किनारे पर दिनेश हजारीमल छीपा के मकान से उत्तर में चलकर मोहनजी नागर के मकान से पश्चिम में जाखोडा मार्ग पर रमेश देवाजी कुम्हार के मकान से रोड पार कर शिवाजी नगर कॉलोनी की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए चतरा वाला जाव से उत्तर में शमशान घाट पाना बाला पार कर सरहद मौजा जाखोडा से पश्चिम में चलकर दक्षिणी आबादी इण्डस्ट्रीज एरिया को लेते हुए पाली रोड,	860

	चुंगी नाके से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुए हनुमानजी मंदिर से पाना बाला किनारे पूर्व में चलकर चतरा वाला जाव व घांचियों वाला जाव की सरहद से दक्षिण में चलकर ईसाईयों के कब्रिस्तान से पलंग कारखाने से सडक पार कर नहर पर समाराम हकमाजी के मकान से पूर्व में चलकर पूराराम कुम्हार के मकान रोड पार कर पूर्व में चलकर उत्तरी आबादी लेते हुए पुनः प्रवीण जैन की दूकान तक जा मिले।	
--	--	--

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।